



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2015/पौष 30, 1936

No.126]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2015/PAUSA 30, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015

का.आ. 186(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि त्रिपुरा राज्य में **सोनामुरा जीसीएस से मोनारचक (नीप्को पाउर प्लांट)** तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए **ओ.एन.जी.सी.** लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओल्ड ओ बी एच बीलिंग, ओएनजीसी बेस कॉम्प्लेक्स, वाधारघाट, अगरतला त्रिपुरा 799014 त्रिपुरा को लिखित रूप से आपत्ति भेज सकेगा।

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि को पि.एम.पि. अधिनियम धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है
भूमि की भूमि अनुसूची :-

[illegible]

मौजा:— आइलिया

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि को पि.एम.पि. अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

भूमि की भूमि अनुसूची :-

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं	प्लॉट सं	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	सिपाहीजला	सोनामुरा	आइलिया	586	2971/p	नाल	0.04
2				537	2948/p	नाल	0.05
3				43	2969/p	नाल	0.15
4				60	2359/p	टिला	0.10
5				538/1	3060/p	नाल	0.07
6				15	2994/p	नाल	0.12
7				538/1	3060/p	नाल	0.03
8				563	2954/p	नाल	0.04
9				685	3049/p	नाल	0.29
10				46	3039/p	नाल	0.14
11				207	3043/p	नाल	0.02
12				46	3001/p	नाल	0.17
					3000/p	पुकुर(नाल)	0.15
13				368	2034/p	नाल	0.02
14				182	2073/p	नाल	0.02
15				889	2076/p	नाल	0.02
16				338/1	949/p	नाल	0.05
17				66/1	2958/p	नाल	0.09
					2957/p	नाल	0.10

18				395	2953/p	नाल	0.07
					2952/p	नाल	0.09
19				66	2962/p	नाल	0.12
20				44	2998/p	नाल	0.17
					2996/p	नाल	0.16
21				133/1	2182/p	नाल	0.0
22				703	3043/p	नाल	0.02
					3044/p	नाल	0.04
					3061/p	नाल	0.08
23				17	2650/p	नाल	0.03
					2658/p	नाल	0.03
24				44	3005/p	नाल	0.20
कुल							2.71

मौजा :- शोभापुर

उप-संभाग:-सोनामुरा

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त को भूमि पि.एम.पि. अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

भूमि की भूमि अनुसूची :-

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं	प्लॉट सं	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	सिपाहीजला	सोनामुरा	शोभापुर	1142	4850/p	नाल	0.11
2				411	132/p	नाल	0.01
3				523	121/7286 /p	नाल	0.05
4				2539	3443/7625/p	लुंगा	0.10
5				401	3646/p	नाल	0.06
6				1754	3435/p	नाल	0.04

7				630/2	4858/p	नाल	0.04
8				1550	663/p	नाल	0.04
9				508	888/p	नाल	0.06
10				615	4740/p	नाल	0.14
11				283	903/p	टिला	0.02
12				445	1630/p	नाल	0.04
13				674	164/p	न ल	0.04
					165/p	नाल	0.04
14				397/1	1405/p	नाल	0.14
15				1069	3629/p	नाल	0.05
कुल							0.98

[फा. सं. ओ.12026/05/2014/ओ.एन.जी-III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th January, 2015

S.O. 186(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from **Sonamura GCS to Monarchak (NEEPCO Power Plant)** a pipeline should be laid in the state of Tripura by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipelines are proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipelines under the land to Competent Authority, Old OBH Building, ONGC South colony, Badharghat, Agartala-799014.

SCHEDULE**Mouza:- Nabadwip Chandra Nagar****Sub-Division:-Sonamura****The following Schedule of Additional Plots & Area have been included/increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act 1962****Schedule of Additional Land :-**

Sl. No.	District	Sub Division	Mouja	Khatian No.	Plot No.	Class of land	Area in acre
1	Sipahijala	Sonamura	Nabadwip Chandra Nagar	1490	1180/p	Nal	0.06
2				634	1182/p	Nal	0.17
3				1255	1392/7123/p	Nal	0.13
4				130	1828	Nal	0.08
5				1425	447/p	Nal	0.06
6				1528	1176/3658/p	Nal	0.02
7				708	1405/p	Nal	0.08
8				840	1534/p	Nal	0.07
9				745	1850/p	Nal	0.07
10				745	1854/p	Nal	0.04
11				579	1865/p	Nal	0.04
12				381	1829/p	Nal	0.08
13				864	1865/p	Nal	0.10
14				864	1876/p	Nal	0.02
15				469	1813/p	Nal	0.09
16				869	1452/p	Nal	0.13
17				982	1183/3659/p	Nal	0.14
Total							1.38

Mouza:- Aralia**Sub-Division:-Sonamura****The following Schedule of Additional Plots & Area have been included/increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act 1962****Schedule of Additional Land :-**

Sl. No.	District	Sub Division	Mouja	Khatian No.	Plot No.	Class of land	Area in acre
1	Sipahijala	Sonamura	Aralia	586	2971/p	Nal	0.04
2				537	2948/p	Nal	0.05
3				43	2969/p	Nal	0.15
4				60	2359/p	Tilla	0.10
5				538/1	3060/p	Nal	0.07
6				15	2994/p	Nal	0.12
7				538/1	3060/p	Nal	0.03

8				563	2954/p	Nal	0.04
9				685	3049/p	Nal	0.29
10				46	3039/p	Nal	0.14
11				207	3043/p	Nal	0.02
12				46	3001/p	Nal	0.17
					3000/p	Pond (Nal)	0.15
13				368	2034/p	Nal	0.02
14				182	2073/p	Nal	0.02
15				889	2076/p	Nal	0.02
16				338/1	2949/p	Nal	0.05
17				66/1	2958/p	Nal	0.09
					2957/p	Nal	0.10
18				395	2953/p	Nal	0.07
					2952/p	Nal	0.09
19				66	2962/p	Nal	0.12
20				44	2998/p	Nal	0.17
					2996/p	Nal	0.16
21				133/1	2182/p	Nal	0.03
22				703	3043/p	Nal	0.02
					3044/p	Nal	0.04
					3061/p	Nal	0.08
23				170	2650/p	Nal	0.03
					2658/p	Nal	0.03
24				44	3005/p	Nal	0.20
Total							2.71

Mouza:- Sovapur**Sub-Division:-Sonamura**

The following Schedule of Additional Plots & Area have been included/increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act 1962

Schedule of Additional Land :-

Sl. No.	District	Sub Division	Mouja	Khatian No.	Plot No.	Class of land	Area in acre
1	Sipahijala	Sonamura	Sovapur	1142	4850/p	Nal	0.11
2				411	132/p	Nal	0.01
3				523	121/7286/p	Nal	0.05
4				2539	3443/7625/p	Lunga	0.10
5				401	3646/p	Nal	0.06

6				1754	3435/p	Nal	0.04
7				630/2	4858/p	Nal	0.04
8				1550	663/p	Nal	0.04
9				508	888/p	Nal	0.06
10				615	4740/p	Nal	0.14
11				283	903/p	Tilla	0.02
12				445	1630/p	Nal	0.04
13				674	164/p	Nal	0.04
					165/p	Nal	0.04
14				397/1	1405/p	Nal	0.14
15				1069	3629/p	Nal	0.05
Total							0.98

[F. No. O-12026/05/2014/ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.